



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक 1937 (श0)
(सं0 पटना 1265) पटना, शुक्रवार, 6 नवम्बर 2015

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना
4 सितम्बर 2015

सं0 V/एम1-418/2015-4073—श्री विजय कुमार चौधरी, निरीक्षक उत्पाद, सारण ने अपने जटिल पारिवारिक समस्याओं के कारण दिनांक 30.05.2015 को दिनांक 31.08.2015 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन समर्पित किया था।

2. श्री चौधरी की कुल अर्हक सेवा 20 वर्षों से अधिक है तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना तीन माह पूर्व प्राप्त है। इनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई, आपराधिक अभियोजन अथवा निगरानी वाद लंबित नहीं है।

3. 31.08.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति के प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः श्री विजय कुमार चौधरी, निरीक्षक उत्पाद, सारण को दिनांक 31.08.2015 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1265-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>